



डा. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश



(पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ)

विश्वविद्यालय की विद्या परिषद की अनुमति पर

कु लक्ष्मी

को सिविल इंजीनियरिंग विद्या में प्रौद्योगिकी की स्नातक उपाधि
प्रथम श्रेणी में

उनके द्वारा इस उपाधि की अर्जापत्र हेतु
विश्वविद्यालय द्वारा विहित अपेक्षाओं को सफलतापूर्वक पूरा करने पर
एतद्द्वारा सन् 2019 में उद्यत की जाती है।

Dr. A. P. J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh

(Formerly Uttar Pradesh Technical University, Lucknow)

Upon the recommendation of the Academic Council,

the University hereby confers the degree of

Bachelor of Technology in Civil Engineering


upon

KM LAXMI

*who has successfully completed the requirements prescribed by the University
for the award of this degree in*

First Division

in the year 2019



Sanjay Kumar Pathak

(Dean, Quality Assurance)
Lucknow

(Vice-Chancellor)
Vice-Chancellor



AKTU One View

Student Result

Institute Code & Name : (AKU) S.R. INSTITUTE OF MANAGEMENT & TECHNOLOGY LUCKNOW
Course Code & Name : (34) B.TECH
RollNo : 1549100051
Name : AM LAXMI
Father's Name : RAM PALAT
Branch Code & Name : (00) CIVIL ENGINEERING
EnrollmentNo : 154850078019
Hindi Name : अम
Gender : F

Print One View

One View Result

Session : 2015-16(REGULAR) Semesters : 1,2 Result : PASS Marks : 1290/2000

Session : 2016-17(REGULAR) Semesters : 3,4 Result : PWG Marks : 1312/2000 AUC Status : Cleared

Session : 2017-18(REGULAR) Semesters : 5,6 Result : PCP Marks : 1281/2000 COP : NCE502,NCE601 AUC Status : Cleared

Session : 2018-19(BACK) Semesters : 5,6 Result : PWG Marks : 1289/2000 AUC Status : Cleared

Session : 2018-19(REGULAR) Semesters : 7,8 Result : PASS Marks : 1372/2000 AUC Status : Cleared Division : I - DIV

Semester : 7
Total Subjects : 9
Practical Subjects : 3
Result Status : CP(O)
Date of Declaration :
Even/Odd : Odd
Theory Subjects : 5
Total Marks Obt. : 628
SGPA : N/A

Code	Name	Type	Internal	External	Back Paper	Credit
NCE071	ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT	Theory	30	45		4
NC1034	INDUSTRIAL POLLUTION CONTROL & ENV. AUDIT	Theory	33	45		4
NC1943	OPEN CHANNEL FLOW	Theory	32	63		4
NCE701	DESIGN OF STEEL STRUCTURES	Theory	31	54		4
NC1702	WATER RESOURCES ENGG.	Theory	30	78		4
NCE751	SEMINAR	Practical	34			4
NCE752	INDUSTRIAL TRAINING	Practical	33			1
NC1753	PROJECT	Practical	80			3
NGP701	GENERAL PROFICIENCY	GP	38	N/A		3

Semester : 8
Total Subjects : 6
Practical Subjects : 1
Result Status : PASS
Date of Declaration :
Even/Odd : Even
Theory Subjects : 4
Total Marks Obt. : 746
SGPA : N/A

Code	Name	Type	Internal	External	Back Paper	Credit
NCE081	Non Conventional Energy Resources	Theory	48	73		4
NC1952	Analysis and Design of Hydraulic Structures	Theory	44	69		4
NC1063	Groundwater Management	Theory	41	62		4
NC1801	Transportation Engineering II	Theory	45	34		4
NC1801	Project	Practical	66	220		4
NGP901	GENERAL PROFICIENCY	GP	44	N/A		8

First Year Marks : 1290
Third Year Marks : 1289
First Year Result : PASS
Third Year Result : PWG
Maximum Marks : 5000
Division Awarded : I - DIV

Second Year Marks : 1312
Fourth Year Marks : 1372
Second Year Result : PWG
Fourth Year Result : PASS
Marks Obtained : 1318